



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3742]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 20, 2018/भाद्र 29, 1940

No. 3742]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 20, 2018/BHADRA 29, 1940

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2018

का.आ. 4911(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण/केन्द्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा-11(क) के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तिथि से पैंतालीस (45) दिनों की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन/संपर्क नं./ई-मेल आई. डी. भी दें, जो पठनीय हो।

संशोधन:

दिल्ली मुख्य योजना-2021	
तालिका 8.2 : सरकारी भूमि उपयोग श्रेणी के लिए योजना मानक और विकास नियंत्रण	
मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन/आशोधन
कोई प्रावधान नहीं	अन्य नियंत्रण : <u>निम्नलिखित को क्रम संख्या vi के बाद जोड़ा जाए ।</u> vii. सरकारी उपयोग (अनिर्धारित) के मान दंड अनुमोदित ले आउट/स्कीम के अनुसार होंगे, जिसके लिए विकास नियंत्रण संबंधित उपयोग परिसरों के अनुसार होंगे ।

2. प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला दि.मु.यो.-2021 का पाठ निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों में उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ दि.वि.प्रा की वेबसाइट www.dda.org.in पर भी उपलब्ध है।

[फा. सं. एफ.20(01)2016/एम पी]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(MASTER PLAN SECTION)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the, 20th September, 2018

S.O. 4911(E).—The following modifications which the Delhi Development Authority/Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi-2021, under Section-11(A) of Delhi Development Act, 1957, are hereby published for public information. Any person having any objections/suggestions with respect to the proposed modifications may send the objections/suggestions in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi-110023, within a period of Forty Five (45) days from the date of issue of this Notice. The person making the objections or suggestions should also give his/her name, address and telephone/contact number(s)/ E-mail ID which should be readable.

Modification:

MPD - 2021	
Table 8. 2: Planning Standards & Development Controls for Government Land Use Category	
Existing Provisions	Proposed Amendments/Modifications
No provision	<p>Other Controls:</p> <p><i>The following to be added after Sl. no vi.</i></p> <p><i>vii. The norms of Govt. use (undetermined) shall be as per approved layout / scheme, for which development controls shall be as per respective use premises.</i></p>

2. The text of MPD-2021 indicating the proposed modifications shall be available for inspection at the Office of the Dy. Director, Master Plan Section, 6th Floor, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi-110002, on all working days within the period referred above. The text indicating the proposed modifications is also available on DDA's website i.e. www.dda.org.in.

[F. No: F 20(01)2016/MP]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.